

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works:

20, K.M. Mathura Road, P.O.Box 328

P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA Tel.: +91 (129) 4288888, E-mail: info@bglindia.com Corporate Identity Number: L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/MAY 2021-2022

BGL/SEC/BSE/2/MAY 2021-2022

May 21, 2021

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice to shareholders for transfer of Equity Shares into the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith Notice published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) – Delhi Edition and "Jansatta" (Hindi) – Delhi Edition on 21st May, 2021 in relation to intimation for transfer of Equity Shares into the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority) in terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and further amendments thereto.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Bharat Gears Limited

Prashant Khattry

Head (Legal) and Company Secretary

Encl: As above



Mumbai Office: 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax:+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com Mumbra Works: Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA Tel.: +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 luck@canarabank.com
QUIRED EM from the owners of commercia ready for occupation with required ng location:
trict Carpet Area Power (approx.) Load
inor 1700 sqft 20 KW
cknow 2200 sqft 20 KW
cknow 2200 sqft 20 KW
cknow 2200 sqft 20 KW

any reasons whatsoever. Further, communications, corrigendum, amendments,

Date:21.05.2021 Place: Lucknow Deputy General Manager

if any, will be hosted in Bank's website only.

NORTHERN RAILWAY TENDER NOTICE Invitation of Tenders through E-Procurement system

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

S.N.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date
01 16210349		COMPLETE WINDOW ASSEMBLY WITH INNER.	490 NOS	14.06.21
02	16200376	HYDRAULIC MOTOR FOR 700 HP	27 NOS	15.06.21
03	03 16210387 MOTOR HYDRAULIC FOR VENT FAN ENGINE		31 NOS	16.06.21
04	02212511 LOW MAINTENANCE LEAD ACID BATTERIES 75 AH		96 SET	16.06.21
05	19210644	SET OF DAMPER FOR WAG-9H	10 SET	18.06.21
06	12211555	125 AMPERE 1000 VOLT HRC FUSES	583 SET	18.06.21
07	16200179	ELEMENT FILTER FOR EMD LOCO	1373 NOS	21.06.21
80	08 16210115 LEVELING VALVE		345 NOS	21.06.21
09	16213633	TAPERED ROLLER BEARING	139 SET	22.06.21
10	07211149	DOUBLE ACTING HYDRAULIC SHOCK ABSORBER	1624 NOS	23.06.21

No Manual offer will be entertained.

Tender Notice No. 12/2021-2022 Dated: 20.05.2021 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

BHARAT GEARS LIMITED

Note:- 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details

CIN: L29130HR1971PLC034365 Regd. Office & Works: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana) Tel.: +91 (129) 4288888, Fax: +91 (129) 4288822-23, Website: www.bharatgears.com

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, ransfer and Refund) Rules, 2016 and further amendments thereto, all shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Authority) within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the IEPF as per the procedure mentioned in the said Rules.

This Notice is published for those Shareholders who have not encashed the Dividend warrants/draft for last seven consecutive years commencing from the financial year 2013-14 on the Equity Shares of the Company held by them.

In terms of the said Rules, the due date of transfer of such shares shall be 30/08/2021 Therefore, the Company shall transfer/credit such shares to the Demat account of Authority latest by 29/09/2021 (Net of Shares already transferred along with dividend for the earlier years). Further in terms of the said Rules, all benefits accruing on such shares viz. Bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the right issue shall also be credited to such Demat account.

The Company has dispatched individual notice at the latest available address of the concerned shareholders for the said purpose. The list containing the names of such shareholders and their folio no. or DP ID-Client ID has been uploaded on the website of the Company viz. www.bharatgears.com.

Shareholders are requested to make claim in respect of unpaid dividend on such shares on or before 30/08/2021 by submitting a written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque and the original uncashed dividend warrant to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058 or at the Registered Office of the Company failing which the Company shall transfer/credit your shares to Demat account of the Authority.

Please note that any claimant whose shares are liable to be transferred to Demat Account of the Authority can claim shares in accordance with the procedure laid down under the

In case shareholders have any query/clarification they may contact to Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058, E-mail id: delhi@linkintime.co.in, Telephone No.: +91 11 49411000 or at Registered Office of the Company 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana) or contact us at Telephone No.: +91 129 4288888. Further details of the above are available on the website of the Company i.e.

www.bharatgears.com and the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Dated: May 20, 2021

Place: Faridabad

For Bharat Gears Limited (Prashant Khattry) Head (Legal) and Company Secretary FCS-6096

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE AT	TENTION OF	THE CRED	ITORS OF
M/S SARE FACILITY	(GURGAON)	SERVICES	PRIVATE LIMITED

	RELEVANT	PARTICULARS
1.	Name of corporate debtor	SARE FACILITY (GURGAON) SERVICES PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	15.09.2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U93030DL2010PTC208273
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	6, 383 C, Bank Street, Munirka New Delhi 110067 (India)
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	17.05.2021
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	13.11.2021
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Bikram Singh Gusain, IBBI/IPA-002/IP-N00011/2016-17/10015
0	Address and a mail of the interim	B 1/105 Suprice Apartments

8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Bikram Singh Gusain, IBBI/IPA-002/IP-N00011/2016-17/10015
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	B-1/105, Sunrise Apartments, Dr. K N Katju Marg, Sector 13, Rohini, Delhi 110085 E-mail- bikramgusain@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Bikram Singh Gusain C/o Yogakshem Insolvency Professionals LLP UGF 1/15, (Near PNB), Tilak Nagar, New Delhi- 110018 cirpsarefacility@yahoo.com
11.	Last date for submission of claims	02.06.2021
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the	Not Applicable

Representative of creditors in a class (Three names for each class) 14. (a) Relevant Forms are available at: Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a

corporate insolvency resolution process of the Sare Facility (Gurgaon) Services Private Limited on The creditors of M/s Sare Facility (Gurgaon) Services Private Limited, are hereby called upon to

submit their claims with proof on or before 02.06.2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Not applicable in Form CA.

The claims may be submitted in their specific Forms B, C, CA, D, E and F in terms of Regulation 7, 8, 8A, 9 and 9A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution process for Corporate Persons) Regulations, 2016. Form B by Operational Creditors (except Workmen and Employees), Form C by Financial Creditors, Form CA by Financial Creditors belonging to a class, Form D by a Workman or an Employee, Form E by Authorized Representatives of workmen and Employees and Form F by other Creditors. The claim forms can be down loaded from IBBI website-

https://ibbi.gov.in/home/downloads Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 21.05.2021 Name and Signature of Interim Resolution Professional: Place: New Delhi



CIN: L31200GJ2004PLC044068 Website: www.torrentpower.com E-mail: cs@torrentpower.com

Torrent Power Limited

Registered Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Ph.: 079-26628000

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE OUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Crore except per share data)

Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	
	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	
	Un-audited	Audited	Un-audited	
Total income from operations	3,084.13	12,172.66	2,983.50	
Net profit for the period before tax and exceptional items	455.28	1,551.77	306.94	
Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	455.28	1,551.77	(693.06)	
Net profit / (loss) for the period after tax and exceptional items	398.10	1,295.87	(273.94)	
Total comprehensive income for the period (after tax) (attributable to owners of the Company)	407.08	1,295.04	(291.14)	
Equity share capital	480.62	480.62	480.62	
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)		9,703.62 (as at 31.03.2021)	8,672.92 (as at 31.03.2020)	
Earnings per share (of ₹ 10/- each)				
Basic (₹)	8.26	26.86	(5.72)	
Diluted (₹)	8.26	26.86	(5.72)	

Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020
	Un-audited	Audited	Un-audited
Total income from operations	2,994.42	11,776.52	2,930.69
Net profit for the period before tax and exceptional items	475.33	1,583.24	368.75
Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	475.33	1,583.24	(631.25)
Net profit / (loss) for the period after tax and exceptional items	414.82	1,324.91	(222.18)
Total comprehensive income for the period (after tax)	423.95	1,328.30	(238.27)

 The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same, along with the notes, are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.torrentpower.com.

Date: May 20, 2021

PUBLIC NOTICE

M/s Anant Raj Limited are pleased to inform that the Residential Plotted Colony Project at Sector 63A. Gurugram, Haryana has been accorded with Environmental Clearance for 110.20575 acres from State Environment Impact Assessment Authority, Department of Environment, Haryana vide letter no SEIAA(127)/HR/2021/480 dated 11th May, 2021 The copy of the clearance letter is available with the Haryana State Pollution Control Board and can also be seen on their website http://www.hspcb.gov.in

ANANT RAJ LIMITED



Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. CIN: L28100MP1979PLC049375

Regd. office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

FORM NO. CAA. 2 [Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7)] BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL INDORE BENCH AT AHMEDABAD

C.A.(CAA)/8 (MP) 2021 In the matter of: The Companies Act, 2013 - Sections 230 to 232 of the said Act

and Rules made thereunder And COMMERCIAL ENGINEERS & BODY BUILDERS CO LIMITED, having CIN L28100MP1979PLC049375 a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 48, Vandana Vihar, Narmada Road

Gorakhpur, Jabalpur - 482001, Madhya Pradesh. ... Applicant/ Transferee/Amalgamated Company

JUPITER WAGONS LIMITED, having CINU35202WB2006PLC110822, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 4/2, Middleton Street Kolkata – 700071, West Bengal.

....Transferor/Amalgamating Company Notice and Advertisement of notice of the meeting of Unsecured

Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders

Notice is hereby given that by an Order dated 16th April 2021, the National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad ("NCLT") has directed separate meetings to be held of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company for the purpose of considering. and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement proposed in the Scheme of Amalgamation between Commercial Engineers & Body Builders Co Limited and Jupiter Wagons Limited and their respective shareholders and creditors (hereinafter, the "Scheme") pursuant to Section 230-232 of the Companies Act, 2013and other applicable provisions thereof and rules made thereunder.

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that a separate meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company will be held on Friday 25th day of June 2021, through Video Conference ("VC") and Other Audio Visual Means ('OAVM') as per details mentioned below, without the physical attendance at a common venue.

SI, No.	Class of Meeting	Time (IST)		
1	Secured Creditors	11 a.m.		
2	Unsecured Creditors	1 p.m.		
3	Equity Shareholders	3 p.m.		

Copies of the Notice, scheme and the statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 (Act) read with under section 230-232of the Act can be obtained free of charge within 1 (one) working day on a requisition being so made for the same by the Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company at the registered office of the Applicant company on all working days between 10.30 a.m. to 12.30 p.m., or at the office of its authorized representative Shri. Chetan Patel at 301, Akshar Stadia, Opp. Symphony House, B/H Armieda Cosmetic Centre, Off S.G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380059. The NCLT has appointed Ms. Vineeta Shriwani, Independent Director of

the Applicant Company and failing her, Mr. M.V. Raja Rao Independent Director of the Applicant Company as Chairperson of the Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant

The abovementioned scheme if approved by the aforesaid respective meetings will be subject to the subsequent approval of the NCLT. SD/ Dated this 21 day of May 2021

> Ms. Vineeta Shriwani DIN-08095170

Chairperson appointed for the meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of the Applicant Company



TANLA PLATFORMS LIMITED (Formerly known as Tanla Solutions Limited)

CIN: L72200TG1995PLC021262, Registered Office: Tanla Technology Centre, Hitec City Road, Madhapur, Hyderabad, Telangana – 500 081 Tel. No.: +91 040 40099999 | Fax No.: +91 040 2312 2999 E-mail: investorhelp@tanla.com | Website: www.tanla.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules"), each as amended from time to time, and the General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, September 28, 2020 and December 31, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), the Company has completed dispatch of the postal ballot notices along with explanatory statement (in electronic form) on Thursday, May 20, 2021 to all shareholders whose names appear in the register of members/list of beneficial owners, as on the close of working hours on May 14, 2021 (Friday) i.e., cut off date, as received from the National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together referred to as "Depositories") and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with the depository through the concerned depository participants and in respect of physical holdings with KFin Technologies Private Limited, the registrar and share transfer agent of the Company ("KFintech"), for seeking their approval to the proposed "Tanla Platforms Limited - Restricted Stock Unit Plan 2021" & "Grant of Stock Options to the eligible employees of the Subsidiary(ies) of the Company, through Postal Ballot by way of remote e-voting ("E-voting").

Rules, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is offering facility of Evoting. The Company has engaged services of KFintech as its agency for providing E-voting facility to shareholders of the Company. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope have not been sent to the shareholders for this postal ballot and shareholders are requested to carefully read the instructions indicated in postal ballot notice and communicate their assent (for) or dissent (against) through E-voting only. Voting through electronic means shall commence from 9.00 a.m. on May 21, 2021 (Friday) and end at 5.00 p.m. on June 19, 2021 (Saturday). Voting by electronic means will not be allowed beyond 5:00 p.m. on June 19, 2021

In compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act read with Rules 20 and 22 of the Management

(Saturday). Members are requested to refer to E-voting instructions in the postal ballot notice regarding the process and manner for E-voting. The voting rights of the members for e-voting shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital as on the said cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the Company's website (www.tanla.com), website of KFintech (https://evoting.karvy.com), and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

The Board of Directors has appointed Ms. Madhu Lakhlan, Practicing Company Secretary (CP No. 23044), Madhu Lakhlan & Company, Hyderabad as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. On account of threat posed by COVID-19 and in terms of the MCA Circulars, the Company has sent the postal

ballot notice in electronic form only and hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and

pre-paid business envelope have not been sent to the members for this postal ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the E-voting system. Therefore, those members who have not yet submitted their e-mail address are requested to get their e-mail addresses registered by following the procedure given below: (i) In light of the MCA Circulars, for remote E-voting for this postal ballot, shareholders who have not registered their email addresses and in consequence the E-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses submitted with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin

- Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ Shareholders may also visit the website of the Company (www.tanla.com) and click on the "Postal ballotemail registration" and follow the submission process as guided thereafter. Post successful submission of the e-mail address, the shareholder would get soft copy of this Notice and the procedure for E-voting along with the user-id and the password to enable E-voting for this postal ballot. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com. (ii) It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the shareholders are however requested to
- register their email address, in respect of electronic holdings with the depository through the concerned depository participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, India by following due procedure. (iii) Those shareholders who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail

addresses validated with their depository participants / the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited to enable servicing of notices / documents / annual Reports electronically to their e-mail address. The Scrutinizer will submit the report to the Chairman of the Company or any other person authorized by the

displayed on the website of the Company at www.tanla.com and shall also be informed to National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited, and the Registrar and Share Transfer Agent. For any query or grievance regarding, inter alia, voting by electronic means, please visit Help & FAQ's section of

Chairman and the e-voting results will be announced on or before June 21, 2021 (Monday), and will be

KFintech's e-voting website or contact the Kfintech at Toll free No. 1800 3454 001 or write an e-mail to evoting@karvv.com or contact Ms. Seshanuradha Chava, General Counsel and Chief Regulatory Officer. Tanla Technology Centre, Hitec City Road, Madhapur, Hyderabad, Telangana – 500 081 at +91 040-40099999 or write an e-mail to investorhelp@tanla.com.

For Tanla Platforms Limited

Sd/-, Seshanuradha Chava

General Counsel and Chief Regulatory Officer Place: Hyderabad Date: May 20, 2021 M No.: A15519

Norican Group DISA INDIA LIMITED

Date : May 20, 2021

Date: May 19, 2021

Place : Mumbai

Shaping Industry

Regd. Office: World Trade Center, 6th Floor, Unit No. S-604 Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bangalore - 560055. Tel: +91 80 22496700. Fax: +91 80 2249 6750. E-mail: bangalore@noricangroup.com, www.disagroup.com CIN No: L85110KA1984PLC006116

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Rs. in Million)

Lokesh Saxena

Managing Director

	Standalone			Consolidated			
Particulars		Current Year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	3 months ended	Current Year ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	
	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	
	Refer Note 2	Audited	Refer Note 2	Refer Note 2	Audited	Refer Note 2	
Revenue from Operations	296.3	1775.10	172.6	319.3	1,850.6	190.3	
Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.5)	315.6	(28.1)	3.9	323.5	(25.5)	
Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.5)	315.6	(28.1)	3.9	323.5	(25.5)	
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.2	235.6	(18.1)	3.5	241.5	(16.3)	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.5	238.8	(16.5)	4.6	244.6	(14.7)	
Equity Share Capital	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	
Reserves (excluding Revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet as on previous year)	5-1	1860.90		=	1890.90	-	
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) Basic :Rs. Diluted :Rs.	0.14 0.14	162.01 162.01	(12.45) (12.45)	2.41 2.41	166.07 166.07	(11.21) (11.21)	

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year ended audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / yearly financial results are available on the Stock Exchange website

www.bseindia.com and on the company website www.disagroup.com. 2) The figures for the guarter ended on March 31, 2021 and guarter ended March 31, 2020 in financial results are balancing figures between audited figures of the full financial year and the published year to date figures up to the third guarter of the respective financial years. For DISA India Limited Place: Bengaluru

NIYOGIN FINTECH LIMITED

Registered Office: MIG 944, Ground Floor, TNHB Colony, 1st Main Road, Velachery, Chennai, Tamil Nadu- 600042 Corporate Office: Neelkanth Corporate IT Park, 311/312, Kirol Road, Vidyavihar (West), Mumbai - 400086

Email ID: info@niyogin.in Website: www.niyogin.com CIN: L65910TN1988PLC131102 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2021

Sr.	Particulars	Standalone				Consolidated			
No.	r ar ticulars	Quarter ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Quarter ended 31 March 2020 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Quarter ended 31 March 2020 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	441.86	2599.62	620.33	2762.55	1839.14	5063.05	851.29	2804.81
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(601.07)	(643.85)	(624.39)	(2,329.31)	(558.69)	(725.18)	(669.96)	(2,464.91)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(601.07)	(643.85)	(624.39)	(2,329.31)	(558.69)	(725.18)	(669.96)	(2,464.91)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(601.07)	(643.85)	(624.39)	(2,329.31)	(592.77)	(742.08)	(664.33)	(2,451.77)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(595.05)	(631.37)	(609.98)	(2,317.36)	(586.75)	(729.60)	(649.92)	(2,439.82)
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	2	9350.16	124	8598.55	100	9350.15	554	8598.55
7.	Other Equity		19304.06	(*)	15602.21		19194.54		15540.97
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	R	154	7(41)	*		194	54	1963
9.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		3				3		*
	Basic:	(0.64)	(0.73)	(0.73)	(2.72)	(0.64)	(0.79)	(0.75)	(2.80)
	Diluted :	(0.64)	(0.73)	(0.73)	(2.72)	(0.64)	(0.79)	(0.75)	(2.80)
10.	Networth								-
11.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	2	. 82	199	- 2		- 2	. 8	350
12.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-	. 12	(72)	- B		76	, III	520
13.	Debt Equity Ratio		- 2	7720	- Si	. 12	- 12	12	1100

Notes: a. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, prepared pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 05, 2016. The full format of the Audited (standalone and consolidated) financial results are filed with the Stock Exchanges and are available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and Niyogin Fintech Limited at www.niyogin.com. For Niyogin Fintech Limited

New Delhi

Amit Rajpal Chairman & Non - Executive Director DIN: 07557866

financialexp.epan

interim resolution professional \

identified to act as Authorised

13. Names of Insolvency Professionals | Not Applicable

Bikram Singh Gusain

(₹ in Crore)

Place : Ahmedabad

सात जून को नया 'वेब पोर्टल' पेश करेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है।

इसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजुदा वेब पोर्टल एक जुन से छह जुन तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है। कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चाल कर दिया जाएगा।

आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित किया जा सकता है।

उत्तर रेलर

सं.: CIID/SLR/Tender/2020 (Part-V) सन्दर्भः निविदा छपने की तिथि : 11.05.2021 एवं खुलने की तिथि : 24.05.2021

आप सभी को यह सचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, विभिन्न अँग्रेजी और हिंदी अखबारों में प्रकाशित विशेष ट्रेनों में SLR पार्सल स्पेस को पटटे पर देने के लिए निविदा, जो कि IREPS पोर्टल www.ireps.gov.in के माध्यम से दिनांक 24.05.2021 को खोली जानी थी उसे स्थिगत कर दिया गया है और अब इसे दिनांक 02.06.2021 को 15:00 बजे खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निविदा की मद संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 को प्रशासनिक कारणों की वजह से उपलब्ध ना होने के कारण वापस लिया जाता है।

मद सख्या	ट्रेन न.	कहा से	कहा तक	कम्पार्टमेट	निविदा न.
2.	04739	DEE	BKN	FI	SLR-FI-04739-April 21
3.	04739	DEE	BKN	RI	SLR-RI-04739-April 21
4.	04021	DEE	JP	FI	SLR-FI-04021-April 21
5.	04021	DEE	JP	FII	SLR-FII-04021-April 21
6.	04021	DEE	JP	RI	SLR-RI-04021-April 21
अन्य जानकार	ी में कोई ब	दलाव नहीं	会1		1082/2021

रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन: L51909HR1965PLC034315 पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर,

फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) दरमाष: +91 (129) 4288888, फैक्स: +91 (129) 4288823-22 वेबसाइटः www.raunaginternational.com, ई-मेलः info@raunagintl.com

कम्पनी सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 तथा उसके संशोधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सचित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयरों जिनके संदर्भ में लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभोंश का दावा नहीं किया गया है. उन्हें उक्त नियमावली में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने की नियत तिथि के तीस दिनों की अवधि के भीतर निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आईईपीएफ

यह सूचना ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रकाशित की गयी है जिन्होंने उनके द्वारा धारित कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू लगातार सात वर्षों तक लाभांश ड्राफ्ट का

उक्त नियमावली के अनुसार ऐसे शेयरों की अंतरण नियत तिथि 27 सितम्बर, 2021 मानी जाएगी अतएव, कम्पनी अधिकतम 27 अक्तूबर, 2021 तक ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित/क्रेडिट करेगीं (ऐसे शेयरों से शुद्ध जिन्हें पूर्व वर्षों के लामांश के साथ पहले से ही अंतरित कर दिया गया है)। पनः नियमावली के अनुसार ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लामों जैसे बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, फ्रींक्शन शेयरों आदि (राइट इश्यू

कम्पनी ने उक्त उददेश्य से संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर वैयक्तिक सचना प्रेषित कर दी है। ऐसे शेयरधारकों के नामों तथा उनके फोलियों नं अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी से शामिल सूची कम्पनी की वेबसाइट www.raunaginternational.com

इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 अथवा कम्पनी के पंजीकत कार्यालय पर पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति, निरस्त चेक की प्रति तथा मूल अन्कैश्ड लाभोश डाफ्ट के साथ लिखित आवेदन 27 सितम्बर, 2021 को या उससे पूर्व जमा करके, ऐसे शेयरों पर अप्रदत्त लाभांश के लिए अपने दावे प्रस्तुत करें अन्यथा कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में आपके शेयरों को अन्तरित/क्रेडिट करेगी।

कपया ध्यान रहे कि ऐसे किसी दावेदार जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैंट खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा वे उक्त नियमावली के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया से शेयरों का दावा कर सकते हैं। यदि शेयरधारकों को कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइटस, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, ई-मेल आईडी delhi@linkintime.co.in, दरभाष नं: +91 11 49411000 अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मधुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद—121003 (हरियाणा) या हमसे दूरभाष नं +91 129 4288888 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.raunaginternational.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर

कृते रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड हस्ता./-

(रश्मि असवाल) कम्पनी सचिव एसीएस: 50322

CyberMedia

Regd. Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320 Corp. Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana.

Email: investorcare@cybermedia.co.in, Website: www.cybermedia.co.in NOTICE FOR RESCHEDULING THE DATE OF THE BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company is rescheduled to be held on Friday, the 28th day of May, 2021, inter-alia, to consider and approve the audited financial results, standalone and consolidated, of the Company for the quarter and year

and the websites of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. By Order of the Board

Anoop Singh

Company Secretary

M. No. F8264

Date: May 20, 2021

भारत गीयर्स लिमिटेड सीआईएन: L29130HR1971PLC034365

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः 20 कि.मी., मधुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा); दूरमाष: +91 (129) 4288888, फैक्स: +91 (129) 4288822-23 वेबसाइटः www.bharatgears.com, ई-मेलः info@bglindia.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 तथा उसके संशोधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुचित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयरों जिनके संदर्भ में लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभोंश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें उक्त नियमावली में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने की नियत तिथि के तीस दिनों की अवधि के भीतर निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण ('आईईपीएफ प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जायेगा।

का नगदीकरण नहीं कराया है।

उक्त नियमावली के अनुसार ऐसे शेयरों की अंतरण नियत तिथि 30 अगस्त, 2021 मानी जाएगी अतएव, कम्पनी अधिकतम 29 सितम्बर, 2021 तक ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित/क्रेडिट करेगी (ऐसे शेयरों से शुद्ध जिन्हें पूर्व वर्षों के लाभांश के साथ पहले से ही अंतरित कर दिया गया है)। पुनः नियमावली के अनुसार ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों जैसे बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, फ्रेंक्शन शेयरों आदि (राइट इश्यू ने छोड़कर) भी आईईपीएफ प्राधिकरण के उस डीमैट खाते में क्रेडिट किए जायेंगे

कम्पनी ने उक्त उददेश्य से संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर वैयक्तिक सचना प्रेषित कर दी है। ऐसे शेयरधारकों के नामों तथा उनके फोलियों नं अथवा डीपी आईडी—क्लाइंट आईडी से शामिल सची कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.bharatoears.com

शेयरधारकों से अनरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058 अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति, निरस्त चेक की प्रति तथा मूल अन्कैश्ड लाभोश के डीमैट खाते में आपके शेयरों को अन्तरित/क्रेडिट करेगी।

खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा वे उक्त नियमावली के अन्तर्गत निर्देष्ट प्रक्रिया से शेयरों का दावा कर सकते हैं। शेयरधारकों को कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. नोबल हाइटस. प्रथम तल. प्लॉट एनएच 2. सी–1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, ई–मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in, दूरभाष नं: +91 11 49411000 अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) या हमसे दूरभाष नं. +91 129 4288888 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bharalgears.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते भारत गीयर्स लिमिटेड हस्ता./ (प्रशान्त खत्री) प्रमुख (विधि) तथा कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 मई, 2021 स्थान : फरीदाबाद

पंजाब एंड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

Where service is a way of life

श्री भूपेन्दर सिंह, एफ-73, प्रथम तल, गली नं. 7, भागीरथी विहार, दिल्ली-110092 2. श्रीमती शीला, एफ-73, प्रथम तल, गली नं. 7, भागीरथी विहार, दिल्ली-110092

3. श्री करम चन्द, बी-5/348, यमुना विहार, दिल्ली-110053

विषयः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम, 2002) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सुचना

1. कि वेंचुरा एग्जिम (प्रा.) लिमिटेड में सेवारत आप सम्बोधिती(यों) सं. 1 एवं 2 ने बैंक से वित्तीय सहायता हेतु निवेदन किया था और आपके निवेदन पर बैंक ने जनवरी, 2007 माह में आपको निम्नलिखित सुविधा(ओं) की अनुमति तथा स्वीकृति दी।

सम्पत्ति सं. एफ-73, खसरा नं. 1/60, 1/61 में से, जियाउद्दीनपुर गाँव, आबादी एफ-ब्लॉक, गली नं 7, भागीरथी विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 पर स्थित सम्पत्ति पर निर्मित प्रथम तल के बिल्ट-अप भाग की खरीद हेतु रु. 9,70,000.00 का गृह ऋण।

जियाउद्दीनपुर गाँव, आबादी एफ-ब्लॉक, गली नं. 7, भागीरथी विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 पर स्थित सम्पत्ति पर निर्मित प्रथम तल के बिल्ट-अप भाग के परिप्रेक्ष्य में इक्विटेबल बंधक द्वारा विधिवत प्रतिभृत थीं जो सम्बोधित सं. 1 से सम्बन्धित है। आप सम्बोधिती सं. 1 एवं 2 ने उपर्युक्त सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ऋण दस्तावेजों को क्रियान्वित

किया था और साथ ही उपर्यक्त कथित सविधाओं के परिप्रेक्ष्य में तिमाही रेस्टस तथा समय-समय पर बैंक के दिशा-निर्देशों के साथ 10.25% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के लिए भी सहमत थे। कि आप सम्बोधित सं. 3 उपर्यक्त कथित ऋण सविधाओं की वसली में सम्बोधित सं. 1 एवं 2 के लिए गारंटर थे और बैंक के पक्ष में 25.01.2007 को अनवरत गारंटी का विलेख क्रियान्वित किया और इस प्रकार सम्बोधित सं. 1 से 3 सह–अस्तित्व में हैं और सम्बोधित सं. 1 के साथ अनवरत हैं तथा आप संयुक्त एवं पृथक रूप से ब्याज, लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक शुल्कों सहित बैंक के बकाए का

कि, आप संबोधिती सं. 1 ने उक्त ऋण सुविधा के कंसीडरेशन में बैंक की देयताओं को प्रतिभूत कररं के लिये अचल सम्पत्ति सम्पत्ति सं. एफ-73, खसरा नं. 1/60, 1/61 में से, जियाउद्दीनपुर गाँव, आबादी एफ-ब्लॉक, गली नं. ७. भागीरथी विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 पर स्थित सम्पत्ति पर निर्मित प्रथम तल के बिल्ट-अप भाग के संदर्भ में इक्विटबल मार्टगैज का निर्माण किया है।

गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

ङ) गिरवी सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति सं. एफ-73, खसरा नं. 1/60, 1/61 में से, जियाउद्दीनपुर गाँव, आबादी एफ-ब्लॉक, गली नं. 7, भागीरथी विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 पर स्थित सम्पत्ति

🛮 च) टाइटल डीड्स का विवरण : पंजीकरण सं. 166, ब्लॉक सं. 1, वॉल्यूम सं. 4085, पृष्ठ 107 से 116 दिनांक : 31.01.2007, उपरजिस्ट्रार, एसआर-IV, सीलमपुर, दिल्ली के कार्यालय में।

छ) सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तर : सड़क, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य ज) वर्तमान बकाया राशिः 6,82,900.06 (रुपये छः लाख बयासी हजार नौ सौ एवं छः पैसे मात्र)

4. कथित सावधि ऋण राशि 180 किस्तों/ तिमाही रेस्ट्स सहित पूर्ण भुगतान की तिथि तक 10.25% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के अतिरिक्त रु. 11000.00 की इक्वेटेड मासिक किस्तों में देय थी (केवल सावधि ऋण के मामले में)

के साथ सामान्य स्वीकृत ब्याज दर से ऊपर तथा अधिक 2 प्रतिशत प्रितें वर्ष की दर से अतिरिक्त दंड ब्याज का भगतान करने के लिये सहमत हए।

. कथित गृह ऋण को अधिनियम की धारा 2(ओ) की परिभाषा के अनुसार 30.09.2020 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

रु. 6,82,906.00 जिसमें 31.03.2021 तक ब्याज शामिल है, आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्ति पर कानूनी रूप से बकाया है तथा आप सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक चार्जों के साथ बैंक को उक्त राशि का भुगतान करने के लिये संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी

है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक रेस्ट्रस सहित 01.04.2021 से ब्याज दर

9. कि आपने बैंक की बकाया जो उपरोक्त रूप में प्रतिभृत है, के पुनर्भुगतान में चूक की है। 10. आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की

जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत. चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पर्ण बकाया राशि का भगतान कर सकते हैं। कपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भूगतान नहीं किया जाता है तो आप प्रतिभूत सम्पत्ति को

सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मासिक रेस्ट्रस के साथ 01.04.2021 से उपर्युक्त पैरा 9 में उल्लिखित विवरणों + भावी ब्याज + प्रभार के साथ सम्पूर्ण देयता रु. 6,82,900.06 का संयुक्त तथा पृथक रूप से भुगतान कर अपनी देयताओं का निष्पादित करें अन्यथा, बैंक उक्त प्रतिभूत बकाये की वसूली के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 के चैप्टर III के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिये बाध्य होगा तथा उस स्थिति में आप उसके कारण हुई सभी लागत तथा अन्य खर्चें का भुगतान करने के लिये संयक्त तथा पथक रूप से उत्तरादायी होंगे।

कपया ध्यान रहे कि इस स्चना की प्रति हमारे कार्यालय में रखी गई है।

आपका विश्वासभाजन पंजाब एंड सिंध बैंक

शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट सूचकांक 338 अंक लुढ़का

मुंबई, 20 मई (भाषा)।

शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दुसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सचकांक 338 अंक लढक गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक का ब्योरा आने के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता के बीच घरेलु शेयर बाजार भी नीचे आए। बैठक के ब्योरे में बांड खरीद कार्यक्रम में नरमी लाने पर चर्चा की गई है।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक कारोबार के दौरान 50,000 अंक तक पहंच गया था। लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और अंत में यह 337.78 अंक यानी 0.68 फीसद की गिरावट के साथ 49,564.86 पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 124.10 अंक यानी 0.83 फीसद लुढक कर 14,906.05 अंक पर बंद हुआ।

सचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में ओएनजीसी रही। इसमें 2.70 फीसद की गिरावट आई। इसके अलावा सन फार्मा, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, कोटक

बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयरों में भी गिरावट रही। दूसरी तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, टाइटन, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस समेत अन्य शेयर लाभ में रहे। इनमें 2.47 फीसद तक की तेजी आई।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमख विनोद नायर ने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख और घरेलू संकेतकों के अभाव में बाजार में गिरावट आई। अमेरिकी शेयर बाजार वाल स्ट्रीट में गिरावट रही। फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे जारी होने के बाद ट्रेजरी पर प्रतिफल और डॉलर सुचकांक में उछाल आया। जो ब्योरा सामने आया, उसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी। उन्होंने कहा कि फेडरल ओपन मार्केट

कमेटी (एफओएमसी) बैठक का ब्योरा आने वाले समय में बांड खरीद कार्यक्रम में नरमी का संकेत देता है। यानी यह भविष्य में नीति में बदलाव को बताता है। इसका उभरते बाजारों पर असर होगा। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख

विनोद मोदी के अनुसार कोविड-19

मामलों में कमी से निवेशकों को थोड़ा संतोष मिला है। उन्होंने कहा कि हालांकि एफओएमसी बैठक के ब्योरे के अनुसार सदस्यों के बीच मुद्रास्फीति व नरम रुख को लेकर विचारों में अंतर व वित्तीय संपत्तियों में उसके मूल्य के मुकाबले अधिक तेजी को लेकर ईसीबी (यूरोपियन सेंट्रल बैंक) की चेतावनी का असर भारत समेत वैश्विक बाजारों पर पडा है।

एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सोल में गिरावट रही, जबकि जापान में निक्की बढ़त में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा।

इस बीच. अंतरराष्टीय तेल मानक ब्रेंट क्रड 0.15 फीसद मजबत होकर 66.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 73.12 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के पास उपलब्ध अस्थायी आंकडे के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने बुधवार को 697.75 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

चीनी निर्यात पर सबसिडी दो हजार रुपए प्रति टन घटी

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

दिनांक : 21/05/2021

ओ.ए. नं.1399/2018

3. मैसर्स बुलन्द बिल्डटेक प्रा. लि.

आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

लिया जा रहा है और इसके प्रयोजन हेतु:-

23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

drt1delhi-dfs@nic.in

एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110062

सरकार ने गुरुवार को चीनी निर्यात पर सबसिडी 6,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 4.000 रुपए प्रति टन कर दी। यह कटौती वैश्विक बाजारों में कीमतों में आई तेजी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से की गई है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट - वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम - प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501

शिवाजीनगर, पुणे--411005 **''ऑनलाइन म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर, ऑनलाइन निवेश औ**र

रोबो-एडवाइजरी सेवा प्रदाता हेत्'' पात्र सेवा प्रदाताओं से मूहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

ब्यौरेवार जानकारी, पात्रता मानदंड और निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट

www.bankofmaharashtra.in पर 21/05/2021 से 07/06/2021 तक उपलब्ध

ऋण वसली अधिकरण−I, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

युको बैंकआवेदक

देवेन्दर कुमार एवं अन्यप्रतिवादी

देवेन्दर कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी पी-50, पी-ब्लॉक, विष्णु गार्डेन

गीता पत्नी देवेन्दर कुमार, निवासी पी-50, पी-ब्लॉक, विष्णु गार्डेन, नः

[इसके निदेशक के माध्यम से] इसका कार्यालयः ए-2, बुलन्द हाउस, खानपुः

चुँकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु.31.93.579 /— (इकत्तीस लाख तिरानवे**

हजार पाँच सौ उनासी रूपये मात्र) की वस्ती के लिए एक मुकदमा दायर किया है और

अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए

इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 03.07.2021 को प्रात: 10.30 बजे एलडी.

रिजस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (विस्तृत विवरणों के लिए डीआरटी

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर

महामारी की स्थिति को देखते हुए समी मामलों को विडियों कॉन्क्रेंसिंग के माध्यम से

(1) सभी एडवोकेट्स / लिटिजेंट्स को "सिस्को वेबैक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोव

(2) "मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड" अगली सुनवाई की तिथि के लिए रिजस्ट्रार / वस्ली

(3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेट्स / लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन न

आज 30 अप्रैल 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

प्रतिवादी अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। श्री अमित

के. दर, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-1, नई दिल्ली, फोन नं. 011-23748473 ई-मेलः

अधिकारी-1 और वसूली अधिकारी-2 द्वारा क्वा मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल

"drt.gov.in" पर पब्लिक नोटिस हैंड के अंतर्गत सुनवाई की एक तिथि पूर्व

की वेबसाइट www.etribunal.gov.in फोन नं. 011-23748473 पर सम्पर्क करें)।

है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07/06/2021 को 14.00 बजे तक है।

लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

उप महाप्रबंधक - वै. व्य. मा.

स्थिति में सुधार और गन्ना किसानों को बकाए लेकर अनुबंध किए गए हैं। के भुगतान में उनकी मदद करने के इरादे से विपणन वर्ष 2020-21 (अक्तबर-सितंबर) टन सबसिडी तय की थी। चीनी मिलों को चाल वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात करना

सरकार ने चीनी मिलों की नकदी की है। अब तक 57 लाख टन चीनी निर्यात को

खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुबोध कुमार ने कहा कि मंत्रालय ने इस संदर्भ में 20 के दौरान चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति पई को अधिसूचना जारी की। घटी हुई सिब्सिडी दर 20 मई या उसके बाद के निर्यात अनुबंधों पर लागू होगी।

80 'एनपोए' खाते राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को हस्तांतरित करने की तैयारी

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

बैंक करीब 80 बड़े एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) यानी फंसे कर्ज वाले खाते राष्टीय (एनएआरसीएल) को हस्तांतरित कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकरी दी।

एनएआरसीएल के अगले महीने तक परिचालन में आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट

में घोषित एनएआरसीएल 'बैड बैंक' का नाम है। बैड बैंक से मतलब ऐसे वित्तीय संस्थान से है जो बैंकों के फंसे कर्ज खातों को अपने कब्जे में लेता है और उसका समाधान करता है।

सूत्रों के अनुसार इनमें प्रत्येक एनपीए खातों का आकार 500-500 करोड़ रुपए से अधिक है। बैंकों ने ऐसे करीब 70-80 खातों की पहचान की है। जिसे प्रस्तावित बैड बैंक को हस्तांतरित किया जाएगा। उसने कहा कि इससे 2 लाख करोड रुपए से अधिक का फंसा कर्ज बैंकों के बही-खातों से बाहर होगा और बैड बैंक के जिम्मे जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में कहा था

सहायक महाप्रबंधक

जीएसएडी

कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने फंसे कर्ज के एवज में अधिक मात्रा में प्रावधान करना पडता है। इसे ठीक करने के लिए बैंकों के बही-खातों को दुरूस्त

करने को लेकर कदम उठाने की

जरूरत है।

वित्त मंत्री के अनुसार उसके बाद इन संपत्तियों का प्रबंधन और निपटान वैकल्पिक निवेश कोष और अन्य संभावित निवेशकों के

जरिये किया जाएगा। एनएआरसीएल कर्ज के लिए तय मुल्य का 15 फीसद नकद देगी जबिक शेष 85 फीसद

अगर निर्धारित सीमा से अधिक नुकसान होता है, तो सरकारी गारंटी

को भुनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक




न्यायालय की मुहर

''कोरोना रोकें, मास्क पहनें, शारीरिक दरी का पालन करें, हाथों को धोते रहें' दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम)-II वजीराबाद, वाटर वर्क्स, तिमारपुर, दिल्ली-110054

अधिकरण के आदेशानुसार

कृते रजिस्ट्रार

प्रैस एनआईटी सं.-02 (2021-22)/ ईई (ई एंड एम)-II निविदा जारी की तिथि



इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों के साथ एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम)-II विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 2021-22/57

0 पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं ४, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, E-mail: property@pnb.co.in General Services Administration Division, (prop. Cell) Head Office, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 75, E-mail: property@pnb.co.in

ई-नीलामी बिक्री की सूचना पंजाब नैशनल बैंक प्लॉट संख्या, 7 भीखाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली (पिन –110607) में निम्नलिखित संपत्तियों (खुले फर्नीचर और जुडनार को छोडकर) के लिए सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों से ई-बोलियां आमंत्रित करता है:-

अनुसूची - ए संपत्ति का विवरण बयाना जमा राशि (ईएमडी) निरीक्षण की नीलामी की सामान्य क्षेत्र राशि और जमा की अंतिम तिथि और तिथि और (7, भीखाजी को छोडकर विक्रय योग्य (आरपी) तिथि (आरक्षित मृल्य का / कामा प्लेस, समय समय नई दिल्ली) क्षेत्र (वर्गमीटर) (करोड में) 10%) 16.06.2021 तक 18.06.2021 को 11:00 1. तृतीय तल 1368.24 ₹63.69 ₹ 6.37 करोड बजे से 11:30 बजे तक नियोजित भेंट 18.06.2021 को 12:00 2. चतुर्थ तल 1199.75 ₹ 55.40 ₹ 5.54 करोड आधार पर-बजे से 12:30 बजे तक 16.06.2021 18.06.2021 को 15:00 3. छटा तल 992.40 ₹ 45.82 ₹ 4.58 करोड बजे से 15:30 बजे तक 18.06.2021 को 16:00 992.40 ₹45.82 ₹ 4.58 करोड 4. सातवांतल बजे से 16:30 बजे तक

https://www.pnbindia.in/tender.aspx; https://etender.pnbnet.in: 8443; https://eprocure.gov.in/epublish/app वेब साइटस पर जाएं और / या नोडल अधिकारी से संपर्क करें !— (संपर्क नंबर 011—28073005, 28072005) उपर्यक्त नीलामी के संबंध में कोई भी शद्धिपत्र / विस्तार की तिथि / स्पष्टीकरण केवल हमारी वेब साइट https://www.pnbindia.in प जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है।

इच्छक पार्टियां उपरोक्तानुसार संपत्ति का निरीक्षण कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया

दिनांक: 20.05.2021 नई दिल्ली

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था, 'दबाव वाले कर्ज यानी फंसी संपत्ति को निकालने और उसका निपटान करने के लिये 'संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. और संपत्ति प्रबंधन कपंनी का गठन किया जाएगा।

सरकारी गारंटी वाली प्रमुभृतियों के रूप में होगा।

(आरबीआई) ने साफ किया है कि जो कर्ज धोखाधडी वाली श्रेणी में हैं, उसे एनएआरसीएल को नहीं बेचा जाएगा।

नई दिल्ली, 20 मई (भाषा)।

खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में खाद्य वस्तुओं के सस्ता होने के चलते मामुली रूप से कम होकर 2.66 फीसद और 2.94 फीसद रही। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी

कृषि और ग्रामीण मजदूरों की

बयान के मुताबिक, सीपीआइ-एएल (कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और सीपीआइ-आरएल (ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य स्चकांक) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल 2021 में घटकर 2.66 फीसद और 2.94 फीसद रह गई. जो मार्च 2021 में 2.78 फीसद और 2.96 फीसद थी। सीपीआइ-एएल

सीपीआइ-आरएल पर आधारित खाद्य मद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 1.24 फीसद और 1.54 फीसद रही। इस सूचकांक में एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर हो सकता है। कृषि श्रमिकों के मामले में सूचकांक में 16 राज्यों में एक से लेकर 17 अंक की वृद्धि हुई, जबिक चार राज्यों में एक से चार अंक की गिरावट भी आई।

www.readwhere.com

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जायेगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) लिंक

Punjab & Sind Bank

तिथि: 20 मई, 2021

स्थानः फरीदाबाद

Where service is a way of life

श्रीमती मालती देवी, 388ए/18, बी-ब्लॉक, दिल्ली-110053 साथ ही : सी-400, प्रथम तल, मेन मार्केट, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली-110053 2. श्री देविन्दर कुमार, 388ए/18, बी-ब्लॉक, दिल्ली-110053 |साथ ही : सी-400, प्रथम तल, मेन मार्केट, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली-110053

3. **श्री रविन्दर कुमार,** म.नं. 43, नवीन पार्क, श्याम पार्क, एक्सटेंशन, राजेन्दर नगर. साहिबाबाद निकट गुरुद्वारा, गाजियाबाद-201005 साथ ही : रविन्दर कमार, डी-185, सी, प्रथम तल, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-110020 विषयः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. कि सं. 1 एवं 2 ने बैंक से वित्तीय सहायता हेतु निवेदन किया था और आपके निवेदन पर बैंक ने जनवरी, 2007 माह में आपको निम्नलिखित सुविधा(ओं) की अनुमति तथा स्वीकृति दी।

रु. 14,40,000.00 (रुपये चौदह लाख चालीस हजार मात्र) का गृह ऋण।

उपर्युक्त ऋण सुविधाएं अचल सम्पत्ति अर्थात सी-400, खसरा नं. 362 में से, आबादी मेन मार्केट, भजनपुरा ग्राम घोंडा गुजरान खादर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 पर स्थित बिल्ट-अप सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में इक्विटेबल बंधक द्वारा विधिवत प्रतिभृत थीं जो सम्बोधित सं. 1 से सम्बन्धित है। 2. आप सम्बोधिती सं. 1 एवं 2 ने उपर्युक्त सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ऋण दस्तावेजों को क्रियान्वित किया था और साथ ही उपर्युक्त कथित सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में तिमाही रेस्ट्स तथा समय-समय पर बैंक

के दिशा-निर्देशों के साथ 10.50% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के लिए भी सहमत थे। 3. कि आप सम्बोधित सं. 3 उपर्युक्त कथित ऋण सुविधाओं की वसूली में सम्बोधित सं. 1 एवं 2 के लिए गारंटर थे और बैंक के पक्ष में 22.03.2007 को अनवरत गारंटी का विलेख क्रियान्वित किया और इस प्रकार सम्बोधित सं. 1 से 3 सह–अस्तित्व में हैं और सम्बोधित सं. 1 के साथ अनवरत हैं तथा आप संयुक्त एवं पुथक रूप से ब्याज, लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक शल्कों सहित बैंक के बकाए का भुगतान करने के

4. कि, आप संबोधिती सं. 1 ने सम्बोधित सं. 1 एवं 2 से उक्त ऋण सुविधा के कंसीडरेशन में बैंक की देयताओं को प्रतिभत करने के लिये अचल सम्पत्ति अर्थात सी-400. खसरा नं. 362 में से. आबादी मेन मार्केट, भजनपुरा, ग्राम घोंडा गुजरान खादर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 पर स्थित बिल्ट-अप सम्पत्ति

के संदर्भ में इक्विटैबल मार्टगैज का निर्माण किया है जो सम्बोधित सं. 1 से सम्बन्धित है। । गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

क) मार्टगैजर का नामः संबोधिती सं. 1 श्रीमती मालती देवी

ख) मार्टगैजीः पंजाब एंड सिंध बैंक

ज) वर्तमान बकाया राशिः 11,48,481.96

ग) प्रतिभूत राशिः रु. 14,40,000.00 घ) ब्याज दर : 10.50% ङ) गिरवी सम्पत्ति का विवरणः सी-400, खसरा नं. 362 में से, आबादी मेन मार्केट, भजनपुरा, ग्राम घोंडा गजरान खादर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 पर स्थित बिल्ट-अप सम्पत्ति जो सम्बोधित सं. 1 से

च) टाइटल डीड्स का विवरण : पंजीकरण सं. 392, ब्लॉक सं. 1, वॉल्यूम सं. 4093, पृष्ठ 85 से 94 दिनांक : 23.03.2007, उपरजिस्ट्रार, एसआर-IV, सीलमपुर, दिल्ली के कार्यालय में। छ) सम्पत्ति की चौहददीः उत्तर : श्री भीम सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम : मेन रोड, पूर्व : श्री भीम सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण : श्री भीम सिंह की सम्पत्ति।

ब्याज की दर से ब्याज के अतिरिक्त रु. 16000.00 की इक्वेटेड मासिक किस्तों में देय थी (केवल सावधि 6. कि, आप स्वीकृति तथा ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार चुक करने की स्थिति में त्रैमासिक रेस्टस के साथ सामान्य स्वीकृत ब्याज दर से ऊपर तथा अधिक 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त दंड ब्याज का भुगतान करने के लिये सहमत हए

5. कथित सावधि ऋण राशि 216 किस्तों/तिमाही रेस्टस सहित पर्ण भगतान की तिथि तक 10.50% वार्षिक

7. कथित गृह ऋण को अधिनियम की धारा 2(ओ) की परिभाषा के अनुसार 30.09.2020 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। 8. कि, मेरा बैंक खाता की नियमित पुस्तकों का प्रबंध करता है तथा अब खाता सं. 07621200000036 में रु. 11,48,481.96 जिसमें 31.03.2021 तक ब्याज शामिल है, आप ऊपर नामित संबोध्य व्यक्ति पर कानूनी रूप से बकाया है तथा आप सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज लागत तथा अन्य परम्परागत बैंक चार्जों के

साथ बैंक को उक्त राशि का भगतान करने के लिये संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी है। 9. कि, बैंक के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार समय-समय पर ब्याज की दरों में परिवर्तन होता रहता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक रेस्ट्रस सहित 01.04.2021 से ब्याज दर | 11.00% है।

11. कि आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे सहित किसी को हस्तान्तरित, आवंटित तथा पट्टा या अन्यथा संव्यवहार नहीं करेंगे। आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी. कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज. खर्चे के साथ सम्पर्ण बकाया राशि का भगतान कर सकते हैं। कपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि

10. कि आपने बैंक की बकाया जो उपरोक्त रूप में प्रतिभत है, के पनर्भगतान में चक की है।

का भुगतान नहीं किया जाता है तो आप प्रतिभूत सम्पत्ति को विमोचित करने के पात्र नहीं होंगे। अतएव. इस सांविधिक सचना के द्वारा आप सभी अर्थात संबोध्य सं. 1 से 3 को मैं निर्देश देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मासिक रेस्ट्स के साथ 01.04.2021 से उपर्युक्त पैरा 9 मे उल्लिखित विवरणों + भावी ब्याज + प्रभार के साथ सम्पूर्ण देयता रु. 11,48,481.96 का संयुक्त तथा पृथक रूप से भुगतान कर अपनी देयताओं का निष्पादित करें अन्यथा, बैंक उक्त प्रतिभूत बकाये की वसुली के लिये सरफैसी अधिनियम, 2002 के चैप्टर III के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिये बाध्य होगा तथा उस स्थिति में आप उसके कारण हुई सभी लागत तथा अन्य खर्चें का भगतान करने के लिये संयक्त तथा पृथक रूप से उत्तरादायी होंगे।

कृपया ध्यान रहे कि इस सुचना की प्रति हमारे कार्यालय में रखी गई है।

आपका विश्वासभाजन

पंजाब एंड सिंध बैंक

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED CIN: L92114DL1982PLC014334 Tel.: 0124-4822 222

The said information is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in

Place: Gurugram

कम्पनी सूचना

यह सचना ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रकाशित की गयी है जिन्होंने उनके द्वारा धारित कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2013—14 से शुरू लगातार सात वर्षों तक लाभांश वारंटस/डाफ्ट

वारंट/डाफ्ट के साथ लिखित आवेदन 30 अगस्त, 2021 को या उससे पूर्वे जमा करके. ऐसे शेयरों पर अप्रदत्त लामांश के लिए अपने दावे प्रस्तुत करें अन्यथा कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण कपया ध्यान रहे कि ऐसे किसी दावेदार जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट

एफसीएस-6096 शाखा कार्यालय: गोल मार्केट, नई दिल्ली

उपर्युक्त ऋण सुविधाएं अचल सम्पत्ति अर्थात सम्पत्ति सं. एफ-73, खसरा नं. 1/60, 1/61 में से,

भगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

क) मार्टगैजर का नामः संबोधिती सं. 1 भूपेन्दर सिंह

ख) मार्टगैजीः पंजाब एंड सिंध बैंक ग) प्रतिभृत राशिः रु. ९,७०,०००.०० (रुपये नौ लाख सत्तर हजार मात्र)

पर निर्मित प्रथम तल के बिल्ट-अप भाग

. कि, आप स्वीकृति तथा ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार चुक करने की स्थिति में त्रैमासिक रेस्ट्स

7. कि, मेरा बैंक खाता की नियमित पुस्तकों का प्रबंध करता है तथा अब खाता सं. 0762100000032 में

3. कि, बैंक के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार समय–समय पर ब्याज की दरों में परिवर्तन होता रहता

विमोचित करने के पात्र नहीं होंगे। अतएव, इस सांविधिक सुचना के द्वारा आप सभी अर्थात संबोध्य सं. 1 से 3 को मैं निर्देश देता हूँ कि इस